



एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने हेतु संशोधित दर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।


कार्य का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में बडेथी-बचनौरा-बद्रीगाड मोटर मार्ग के कि0मी0 37.00 से दिवारीखोल से ग्राम जोखणी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 2.35 कि0मी0 तथा क्षेत्रफल 1.75 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्र. सं.	परियोजना का क्षेत्रफल (हे0में)	इकोक्लास की श्रेणी	श्रेणी वन की	घनत्व	प्रभावित वृक्षों की संख्या	दर	धनराशि
1	1.75 हे0	5	खुला वन	0.2	71	6,57,000	11,49,750.00


वन क्षेत्राधिकारी,
धरासू वन राजि।


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।


Draughts Man
Uttarkashi Forest Division


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
चिन्वालीसौड़ उत्तरकाशी


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
चिन्वालीसौड़ उत्तरकाशी

the fact that the \mathbb{Z}_2 -action on \mathbb{R}^n is not free, the quotient space $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}_2$ is not a manifold. However, the quotient space $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}_2$ is a manifold with boundary. The boundary is the set of points in \mathbb{R}^n that are fixed by the \mathbb{Z}_2 -action, which is the set of points $x \in \mathbb{R}^n$ such that $x = -x$. This set is the origin $\{0\}$ in \mathbb{R}^n .

The quotient space $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}_2$ is a manifold with boundary. The boundary is the set of points in \mathbb{R}^n that are fixed by the \mathbb{Z}_2 -action, which is the set of points $x \in \mathbb{R}^n$ such that $x = -x$. This set is the origin $\{0\}$ in \mathbb{R}^n .

The quotient space $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}_2$ is a manifold with boundary. The boundary is the set of points in \mathbb{R}^n that are fixed by the \mathbb{Z}_2 -action, which is the set of points $x \in \mathbb{R}^n$ such that $x = -x$. This set is the origin $\{0\}$ in \mathbb{R}^n .

The quotient space $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}_2$ is a manifold with boundary. The boundary is the set of points in \mathbb{R}^n that are fixed by the \mathbb{Z}_2 -action, which is the set of points $x \in \mathbb{R}^n$ such that $x = -x$. This set is the origin $\{0\}$ in \mathbb{R}^n .

The quotient space $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}_2$ is a manifold with boundary. The boundary is the set of points in \mathbb{R}^n that are fixed by the \mathbb{Z}_2 -action, which is the set of points $x \in \mathbb{R}^n$ such that $x = -x$. This set is the origin $\{0\}$ in \mathbb{R}^n .

The quotient space $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}_2$ is a manifold with boundary. The boundary is the set of points in \mathbb{R}^n that are fixed by the \mathbb{Z}_2 -action, which is the set of points $x \in \mathbb{R}^n$ such that $x = -x$. This set is the origin $\{0\}$ in \mathbb{R}^n .

The quotient space $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}_2$ is a manifold with boundary. The boundary is the set of points in \mathbb{R}^n that are fixed by the \mathbb{Z}_2 -action, which is the set of points $x \in \mathbb{R}^n$ such that $x = -x$. This set is the origin $\{0\}$ in \mathbb{R}^n .

The quotient space $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}_2$ is a manifold with boundary. The boundary is the set of points in \mathbb{R}^n that are fixed by the \mathbb{Z}_2 -action, which is the set of points $x \in \mathbb{R}^n$ such that $x = -x$. This set is the origin $\{0\}$ in \mathbb{R}^n .